

**BACHELOR OF ARTS (GENERAL)
(BAG)**

Term-End Examination

June, 2022

**BPCC-134 : STATISTICAL METHODS
AND PSYCHOLOGICAL RESEARCH**

Time : 2 hours

Maximum Marks : 50

Note :

- (i) Answer any **five** questions, selecting at least **two** questions from each section.
- (ii) All questions carry equal marks.
- (iii) Answer each question in around 300 words.
- (iv) Use of simple calculator is permitted.

SECTION I

1. Define sampling and describe sampling error and standard error. 3+7
2. Compute mean, median and mode for the following data : 10
 14, 17, 19, 19, 20, 19, 17, 18
 15, 19, 19, 13, 12, 9, 8
3. Compute range and standard deviation for the following data : 10
 2, 10, 7, 6, 5, 14, 12, 7, 8, 1
4. Explain the meaning of qualitative research and describe the methods of qualitative research. 3+7

SECTION II

5. Explain the concept of reliability with a focus on methods to test reliability of a test. 10
6. Elucidate descriptive and inferential statistics. 10
7. Compute Spearman's rho for the following data : 10

Data 1 :	1	5	3	4	17	8	32	16	26
Data 2 :	9	12	31	25	24	19	33	10	18

8. Explain average deviation with a focus on its merits, limitations and use. 10

कला स्नातक (सामान्य)

(बी.ए.जी.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2022

बी.पी.सी.सी.-134 : सांख्यिकीय विधियाँ और मनोवैज्ञानिक शोध

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट :

- (i) प्रत्येक भाग में से कम-से-कम दो प्रश्न चुनते हुए, किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
 - (ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
 - (iii) प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए ।
 - (iv) साधारण कैल्कुलेटर के उपयोग की अनुमति है ।
-

भाग I

1. प्रतिचयन को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिचयन त्रुटि और मानक त्रुटि का वर्णन कीजिए । 3+7
2. निम्नलिखित आँकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका एवं बहुलक की गणना कीजिए : 10
14, 17, 19, 19, 20, 19, 17, 18
15, 19, 19, 13, 12, 9, 8
3. निम्नलिखित आँकड़ों के लिए परास एवं मानक विचलन की गणना कीजिए : 10
2, 10, 7, 6, 5, 14, 12, 7, 8, 1
4. गुणात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गुणात्मक शोध की पद्धतियों का वर्णन कीजिए । 3+7

भाग II

5. विश्वसनीयता की अवधारणा की व्याख्या परीक्षण की विश्वसनीयता के परीक्षण करने की विधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कीजिए। 10
6. वर्णनात्मक एवं आनुमानिक सांख्यिकी को स्पष्ट कीजिए। 10
7. निम्नलिखित आँकड़ों के लिए स्पीयरमैन रूहो (Rho) की गणना कीजिए : 10

आँकड़ा 1 :	1	5	3	4	17	8	32	16	26
आँकड़ा 2 :	9	12	31	25	24	19	33	10	18

8. औसत विचलन की व्याख्या इसके गुणों, सीमाओं एवं उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए कीजिए। 10
-